

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में मनाया गया “विश्व मरु प्रसार रोक दिवस”- दिनांक
17/06/2019

दिनांक 17/06/2019 को शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में “विश्व मरु प्रसार रोक दिवस” मनाया गया जिसमें वन विभाग, जोधपुर के अधिकारियों/कार्मिकों सहित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के अधिकारियों/वैज्ञानिकों/कर्मचारियों एवं शोधार्थियों ने भाग लिया। इस वर्ष के विषय वस्तु (Theme) आइये मिलकर भविष्य सँवारे (let's grow the future together) था। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक श्री एम.आर. बालोच ने मरुस्थल का अर्थ बताते हुए कहा कि मरुस्थल की विकट परिस्थितियों में से एक परिस्थिति जल का उपलब्ध नहीं होना भी है। उन्होंने कहा कि मानव जनित परिस्थितियाँ भी मरुस्थल बनाने में सहयोग करती हैं। श्री बालोच ने कहा कि हमारा पारम्परिक ज्ञान भी कई तरह के प्रयोग एवं त्रुटि (Trial and Error), अनुसंधान का परिणाम है तथा श्री बालोच ने इन्दिरा गांधी नहर किनारे के वृक्षारोपण का उदाहरण देकर बताया कि वन विभाग ने विभिन्न तरह के वृक्षारोपण किए हैं। श्री बालोच ने वन भूमि के बाहर वृक्ष (Tree outside forest) एवं वन घनत्व की भी चर्चा की। श्री बालोच ने कहा कि हरियाली जन भागीदारी से बढ़ेगी और इस तरह के दिवस मनाने का मकसद ये ही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मण्डल जोधपुर के उप वन संरक्षक श्री शारदा प्रताप सिंह भा.व. से. ने बताया कि सतत विकास की हमारी परम्पराएँ रही हैं। श्री सिंह ने वन विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न वृक्षारोपण गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। भू संरक्षण एवं जलग्रहण विकास के अधीक्षण अभियंता श्री गजेंद्र चावला ने भूक्षरण के प्रकार, जल क्षरण एवं वायु क्षरण के बारे में बताते हुए जलग्रहण क्षेत्र विकास द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण की चर्चा की। संस्थान के समूह समन्वयक (शोध) डॉ. आई. डी. आर्य ने कहा कि मरुस्थलीकरण को रोकना चुनौतीपूर्ण कार्य है। डॉ. एन.के. बोहरा, वैज्ञानिक 'सी' ने “मरु प्रसार रोक दिवस” पर बोलते हुए कहा कि हम पेड़ लगायें। इससे पूर्व विस्तार प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष श्री उमाराम चौधरी, भा.व.से. ने मरु प्रसार रोक दिवस तथा इस वर्ष के विषय वस्तु (Theme) आइये मिलकर भविष्य सँवारे (let's grow the future together) के बारे में बताते हुए भू अवक्रमण (land degradation) के कारण एवं उपायों के बारे में जानकारी दी। इससे पूर्व में परिसर प्रांगण में चन्दन के पौधे का पौधारोपण मुख्य अतिथि श्री शारदा प्रताप सिंह द्वारा किया गया।

2 | विश्व मरु प्रसार रोक दिवस - 2019

कार्यक्रम में वन्य जीव वनमंडल, जोधपुर के सहायक वन संरक्षक, श्री महिपाल जुगतावत, क्षेत्रीय वन अधिकारी, लुणी श्री अरुण सोनी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. बिलाससिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सुविधा एवं सेवा प्रभाग, विस्तार प्रभाग का सहयोग रहा। कार्यक्रम में विस्तार विभाग के श्री धाना राम, तकनीकी अधिकारी, श्री शैलेन्द्र सिंह, तकनीशियन एवं श्री तेजाराम का सहयोग रहा।



3 | विश्व मरु प्रसार रोक दिवस - 2019



4 | विश्व मरु प्रसार रोक दिवस - 2019

